

LT FOODS LIMITED CORPORATE OFFICE

MVL - I Park, 4th Floor Sector -15, Gurugram-122001, Haryana, India. T. +91-124-3055100 F. +91-124-3055199

CIN No.: L74899DL1990PLC041790

Registered Office

Unit No. 134, 1st Floor, Rectangle-1, Saket District Center, Saket, New Delhi -110017, India. T. +91-11-29565344 F. +91-1129563099

3rd March, 2022

To,

BSE Limited

LTF/SE/2021-22

Corporate Relationship Department

1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building,

P. J. Towers, Dalal Street,

Mumbai - 400 001

SCRIP CODE: 532783

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, C-1, Block G,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai - 400 051

SYMBOL: DAAWAT

Sub: Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the Notice published today in Financial Express and Jansatta.

This is for your information and records please.

Thanking you.

Yours truly

For LT FOODS LIMITED

Monika Chawla Jaggia

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No. F5150

Address: 4th Floor, MVL-I Park, Sector-15, Gurugram-122001















BharatPe accuses Grover, family of added In a jibe to his former comfinancial fraud

"The board will not allow the deplorable conduct of the Grover family to tarnish BharatPe's reputation or that of its hard-working employees andworld-class technology.As a result of his misdeeds, Grover is no longer an employee, a founder, or a director of the company," the statement added.

BharatPe said that the board of directors will now look to further strengthen the fintech firm's corporate governance, including the appointment of an audit committee, an internal auditor and the implementation of other key internal controls.

Responding to the board's allegations, Grover issued a swift statement accusing the board of getting "personal in nature".

"I am appalled at the personal nature of the company's statement, but not surprised. It comes from a position of personal hatred and low thinking. I think the board needs to be reminded of \$1 million of secondary shares investors bought from me in Series C, \$2.5 million in Series D and \$8.5 million in Series E.I would

also want to learn who among Amarchand, PwC and A&M has started doing audit on 'lavishness' of one's lifestyle?" he

pany's board, Grover further wrote, "I indeed have a very lavish lifestyle. I get invited by friends with open hearts to their homes, where I have no qualms sleeping on the floor. And this is when I am on the road in the US and the UK raising \$370 million Series E. And I've the right to stay in any lavish hotel and charge it on the company issued credit card in my pocket. Those who haven't built from scratch will never understand the Founder's mentality."

Prior to sending his resignation on Monday night, Grover had said that he is quitting as MD "effective immediately" due to "baseless and targetted attacks" against him and his family. He also took a dig at BharatPe investors, accusing them of using the board investigation as a "charade" to defame him. Prior to the investigation, Grover had gone on a voluntary leave of absence from BharatPe till March end.

The letter to the board came just a day after Grover's emergency arbitration plea before SIAC was dismissed. In his plea, Grover had sought quashing of the BharatPe board's investigation into the alleged financial

fraud and mishandling of company funds.

The SIAC plea was largely seen as Grover's attempt to seek indemnity for many future liabilities while selling his stake back to the company.

The emergency arbitrator (EA) of the special arbitration court, however, rejected all five grounds of his appeal and declined to provide any relief.

The embroiled legal tussle between the BharatPe board and Grover began two months ago after an audio clip surfaced where he was allegedly heard hurling abuses at an employee of Kotak Wealth Management over the bank's inability to secure financing for the IPO of

Fresh supply woes, payment default fears haunt exporters

R Uday Bhaskar, director general at the Pharmaceutical Export Promotion Council, said while the crisis hasn't yet affected India's pharmaceutical exports, payments and supply challenges are going to create problems.

Moscow has also closed its air space for dozens of countries, mainly from Europe. This has severely reduced despatch

options for those Indian pharmaceutical exporters who used to rely on European airlines to ship out products to Moscow. Some ports in Ukraine are learnt to have been bombed, causing a disruption in supply

links, Bhaskar added.

On top of these, to support a falling rouble, the Russian central bank has raised its key interest rate to 20% from 9.5% and Moscow has asked its exporters to sell 80% of their foreign currency revenues in the market. Precise impact of these measures is yet to be assessed. However, Bhaskar said, since India has been a long-term supplier of pharmaceutical products to the CIS countries, mainly Russia, trade will continue despite potential delay in payments and short-term supply woes.

Gem and Jewellery Export Promotion Council chairman Colin Shah said the Reserve Bank of India will likely clarify soon on how to undertake monetary transactions involving Russian entities in these circumstances. Since Russia is a major supplier of rough diamonds to India for value addition and re-export purposes, the crisis, unless resolved soon, will cause problems for the Indian gems and jewellery trade from April onwards. However, for now, domestic firms have enough stocks. "So, if the crisis gets over soon, I don't see much of a problem,"

he said.

From the Front Page

India's exports to Russia grew 36% on year until December this fiscal to \$2.55 billion but its imports jumped 81% to as much as \$6.89 billion, leading to a trade deficit of \$4.34 billion for New Delhi. India mostly buys petroleum products, diamonds and other precious stones and fertilisers from Russia. Similarly, it ships out capital goods, pharmaceutical products, organic chemicals and farm products to Moscow. Capital goods and certain consumer products made up 25% of India's exports to Russia in the first three quarters of this fiscal, while pharmaceutical and organic chemicals accounted for over 22% and farm items

According to Mahesh Desai, chairman of engineering goods exporters' body EEPC, "If the war continues for some more days, engineering exports to Russia may not reach the expected level by the end of the fiscal." The engineering exports to Russia has been targeted at \$1.2 billion for the current fiscal. Between April and January, engineering exports to Russia hit \$790 million, he added. This means substantial trade must take place in the last two months of the fiscal for the target to be realised.

Raja M Shanmugham, president of the Tirupur

Exporters' Association, expressed surprise at the ECGC move to tighten the coverage norms for exports to Russia.

"Already, the ECGC coverage factors in various risks, including natural calamities and war, when it gives "open cover". So, what is the rationale behind changing the insurance category of Russia to "restricted cover category – I" and put exporters in a tight spot?" he asked.

For its part, the ECGC has said this change has been made to ensure that it is "able to assess and monitor the risks covered under its export credit insurance policies and to place appropriate risk mitigation measures". Jagdish Fofandi, president

of the Seafood Exporters Association of India, said: "Our exporters are awaiting payment and many containers are on the way. Our estimate is that nearly ₹500 crore is at risk as we don't know what is going to happen." Seafood export to Russia in the last fiscal was to the tune of \$84.3 million (₹617 crore). MP Cherian, president of

the United Planters Association of Southern India, said, of the 140 million kg of annual tea imports by Russia, 40 million kg goes from India. "If tea exports to Russia and Ukraine are affected, it will impact the Indian tea sector," he added.

J Rajmohan Pillai, chairman at Beta Group, cashew and dry

fruits trading company, said the conflict is threatening further disruption to the alreadystretched supply chains.

Vivek Nayak, managing director at Hubli-based Ken Agritech, said though the SWIFT ban has hit payment settlement from Russian importers, he was informed by them that the issue would be resolved soon. According to Paresh Bhayani, director at Mumbai-based Panacea Exim,

one of the biggest grape exporters to Russia, said he was not worried much about payments concerning shipments already made, but added that he was apprehensive once banks and ECGC stopped providing services for Russian exports, it would be difficult for him to ship the rest of the consignment of grapes for the current season. "We are constantly keeping a watch on the situation and we will be guiding exporters once the situation improves," MAngamuthu chairman, Agricultural and Processed Food Products Exports Development Authority (APEDA) told FE.

No dilution of NSE order, says Ajay Tyagi

The case brought to light the connection between an "unknown person" and the exchange's former CEO Chitra

there was any attempt to dilute the order. Legal experts say that since NSE was not a listed company, there was no specific violation with reference to sharing sensitive information with a third party by key management persons.

Ramkrishna. He denied that

Tyagi said: "We really had nothing to hide. Sebi tried in earnest to investigate the matter." The comment from the former chairman comes in at a time when the regulator was criticised for its order in the NSE case. Tyagi said that the NSE co-location case was a complex one and that the regulator came out with orders as per its understanding.

The market regulator, in its order dated February 11, had highlighted that Ramakrishna former MD & CEO, NSE, had passed sensitive information related to the exchange to some 'unknown spiritual person'. Following this, then group operating officer of NSE, Anand Subramanian, was arrested by the CBI on February 25.

The outgoing chairman mentioned that other enforcement agencies are looking into the matter and they have their own mandate."We should wait for the investigation of other agencies as well," he said. Tyagi further asserted that the market regulator is sharing all required information with other agencies and further cooperating on the matter.

Disruptive business models to stimulate inclusive growth in agri, rural finance: Study "In the last six years, sevfarmers, FPOs, traders, com-

DAAWAT

SANDIP DAS New Delhi, March 2

THE FOOD AND agriculture sector is expected to witness massive (constructive) disruption through introduc-

tion of new-farming models, advanced agri-tech services and new food products, which would replace the traditional farming system, a joint report by CII and Bain on Wednesday stated.

युको बैंक 倒 UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

Head Office – II, Department of Information Technology 3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake, Kolkata–700064

NOTICE INVITING TENDER UCO Bank invites Request for Proposals (RFPs) for the following:

 Procurement of Debt Platform for End-to-End Handling of Pool Account. Selection of Application Service Provider (ASP) for e-Procurement and e-Reverse / e-Forward Bidding Solution.

Supply, Installation and Maintenance of UPS Systems Under Rate Contract Supply, Installation & Maintenance of Desktop PCs & Laptops under

Implementation of Centralized KYC (CKYC) Registry Application including required software & Facility Management Services. For any details, please refer to https://www.ucobank.com.

Deputy General Manager DIT, BPR & BTD सम्मान आपके विश्वास का | Honours Your Trust

INFIBEAM AVENUES LIMITED [CIN: L64203GJ2010PLC061366] Registered Office: 28th Floor, GIFT Two Building,

Block No. 56, Road-5C, Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar, Taluka & District - Gandhinagar-382355 **Tel**: +91 79 67772204; **Fax**: +91 79 67772205 Email: ir@ia.ooo; Website: www.ia.ooo

NOTICE OF RECORD DATE FOR BONUS SHARES

NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with rules made there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Company has fixed Tuesday, March 15, 2022 as the Record Date to determine the eligible Shareholders of the Company for the purpose of allotment of Bonus Shares in the ratio of 1 (One) new Equity Share of Face Value of Re. 1/- each for every 1 (One) existing Equity Share of Face Value of Re. 1/- each held by the shareholders of the Company.

The above details are also available on the website of the Company i.e. www.ia.ooo and the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. the BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

For Infibeam Avenues Limited

Place: Gandhinagar Date: March 02, 2022

S. PARTICULARS

Shyamal Trivedi Vice President & Company Secretary

DETAILS

FORM B

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy (Liquidation Process) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF M/S. BUTTA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

	17.01100221010	<u> </u>		
1.	Name of corporate debtor	M/S BUTTA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED		
2.	Date of incorporation of corporate debtor	24/01/2017		
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	RoC-Hyderabad		
4.	Corporate identity number / limited liability identity number of corporate debtor	y U45309TG2017PTC114221		
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	House No. 4/14, Butta House, KPHB Road, Madhapur Hyderabad, TG 500081 IN.		
6.	Date of closure of insolvency resolution process	23-02-2022		
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	24-02-2022 (But order copy made available & consent given on 28-02-2022)		
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	Gonugunta Murali Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00654/2017-18/11139		
9.	Address and e-mail of the liquidator, as registered with Board	H.No.16-11-19/4, G-1, Sri Laxmi Nilayam, Saleem Nagar Colony, Malakpet, Hyderabad, Telangana-500036 Email: gmurali34@gmail.com		
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Liquidator	MSKM Group, 11 th Floor, 1209, Vasavi MPM Grand, Yellareddyguda road, Ameerpet, Hyderabad-500038. Email: buttainfraliq@rediffmail.com		

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Amaravathi Bench has ordered the commencement of liquidation of the M/S BUTTA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED on 24-02-2022 under section 33 of the Code.

26-03-2022

The stakeholders of M/S BUTTA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 26-03-2022, to the liquidator a the address mentioned against item No.10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.

Date: 03-03-2022

cies among inputs and marketplaces, precision farming,

processing and storage," the report titled 'Innovation in India rural economy: Disruptive business models are stimulating inclusive growth in agriculture and rural finance,' has stated.

eral start-ups have emerged

to reduce systemic inefficien-

According to the report, new players in the agri-startup sphere like Ninjacart and WayCool are improving distribution efficiencies, which cause 17% to 22% leakage, when perishable commodities are moved from farm to mandi.

The CII-Bain study noted that as newer generations of farmers and Farmers Producers Organizations (FPOs) become digitally savvy, new business models are emerging across the agriculture value chain, from inputs and harvesting to processing and distribution. "Information and trans-

parency initiatives are addressing existing inefficiencies and formalising a traditionally informal sector.

Meanwhile, for ensuring that host of agri-services are accessible to the farmers through electronic National

LT FOODS

CIN NO L74899DL1990PLC041790

Regd. Office:-Unit No 134,1st Floor, Rectangle-1,

Website: www.ltgroup.in, Tele: 0124-3055100, Email: ir@ltgroup.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions

of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 and 22

of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, read with the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020,

Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15

2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020

dated December 31, 2020, circular number 10/2021 dated June 23, 2021 and

circular number 20/2021 dated December 8, 2021 issued by the Ministry of

Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA

Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the

Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modifications or

re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to

time), Postal Ballot Notice seeking consent of the members of LT Foods Limited

("the company") by voting though electronic mode (remote e-voting) has been

sent only by E-mail and completed on 2nd March, 2022 to the

Members/Beneficiaries whose E-mail ID is registered with the Company or its

Registrar & Share Transfer Agent (in respect of shares held in physical form)

or with the Depository Participant (in respect of shares held in electronic form)

and whose name appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners

as on 18th February, 2022 ("Cut-off Date") for obtaining the approval of the

shareholders in respect of the businesses mentioned in the Postal Ballot

Members whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 18th February, 2022 will be considered for the purpose

of e-voting and voting rights shall be reckoned on the paid-up value of Equity

shares registered in the name of the shareholders as on that date. A person

who is not a Member on the cut-off date shall treat this notice for information

The Postal Ballot Notice dated 31st January, 2022 will also be available on the website of the Company at www.ltgroup.in , the relevant section of the website

of the Stock Exchanges viz. BSE and NSE whenever uploaded by them and on

the website of National Securities Depository Limited (NSDL)

The company has engaged National Securities Depository Limited ('NSDL') as the agency for facilitating e-voting facility to enable the members to cast their votes electronically ("Remote e-voting"). Members are requested to note that

e-voting has commenced on Wednesday, 2nd March, 2022 at 9:00 AM (IST) and

will end on Thursday, 31st March, 2022 at 5:00 PM (IST). The resolutions, if

passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the

last date specified by the Company for e-voting i.e. 31st March, 2022. The

e-voting module shall be disabled thereafter and will not be allowed beyond

Members who have not yet registered their email addresses or bank account

details, are requested to register the same in respect of equity shares held in Electronic form with concerned Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the

The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the

members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-voting, are provided in the

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Debasis Dixit, Proprietor, M/s. D Dixit & Associates, Practicing Company Secretaries as the

Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through e-voting process in a fair and transparent manner. The Results of the Postal Ballot alongwith the Report of

the Scrutinizer, will be declared by the Chairman of the company on or before

2nd April, 2022 by 5:00 PM and will be placed on the website of the company at

www.ltgroup.in and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs)

for Members and e-voting user manual for Members available at the download

section of www.evoting.nsdl.com. For any grievances connected with the facility for remote e-voting please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL,

Trade World, A Wing, 4th floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg. Lower Parel, Mumbai, Maharashtra 400013 or email at evoting@nsdl.co.in or

and on the websites of Stock Exchanges viz. BSE and NSE.

call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

Notice dated 31st January, 2022.

https://www.evoting.nsdl.com.

5:00 PM (IST) on 31st March, 2022.

company at ir@ltgroup.in.

Postal Ballot Notice.

purpose only.

Saket District Centre, New Delhi- 110017 Corp. Off.: 4th Floor, MVL-I Park, Sector-15, Gurugram-122001,



Agriculture Market (e-NAM) digital platform, the Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC) will launch a

'platform of

platforms' where private entities providing services such as transportation, logistics, assaying, weather and fintech will be integrated.

Once the digital integration of all the portal runs by agri-services provided by private entities is completed, around 1.75 crore registered

mission agents and other stakeholders with the eNAM platform can avail these ser-The report also noted that

The CII-Bain study noted decade, the rural infrathat as newer generations structure has of farmers and Farmers improved **Producers Organizations** because of become digitally savvy, interventions new business models are by the govemerging across the ernment and agriculture value chain private sector

in the past

sectors.

"There have been continued improvements in physical infrastructure and connectivity, plus significant advancements in digital infrastructure. Rural smartphone and internet penetration increased 30% p.a. over the last five years," the report

noted. Stating that there has been a significant increase in access to credit in the rural ecosystem, the report has state that in the last five years, agri-credit has grown from ₹8 lakh crore in FY15 to ₹14 lakh crore in FY20.

About 35% of agri-credit business

> comes from three states: Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Uttar Pradesh, according to

> > the report.

CII and Bain report stated that demand for credit has risen in

rural areas, especially among consumption-driven loan products like those for twowheelers and consumer durables.

Technology disruption played a key role in this growth by lowering loan servicing costs, which enabled lenders to service lower-value loans.

K G DENIM LIMITED CIN: L17115TZ1992PLC003798

Regd. Office: Then Thirumalai, Coimbatore - 641 302. Phone: 04254-235240, Fax: 04254-235400 Website: www.kgdenim.com, E-mail: cskgdl@kgdenim.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT / E-VOTING

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in terms of the General Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020 No.33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No.10/2021 dated 23.06.2021 and No.20/2021 dated 08.12.2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot notice through e-mail to all its shareholders, who have registered their e-mail IDs, on 25th February, 2022 seeking consent of the members through voting by electronic means to transact the business as set out in the Postal Ballot Notice dated 14th February, 2022 in respect of the following special resolution(s):

To grant approval for the appointment of Shri. Jaganmohan Ramachandran (DIN: 09125603) as an Independent Director of the company with effect from 14th February, 2022 for a term of five

To grant approval for the appointment of Smt. Lakshmi Pattabi Raman (DIN: 09488828) as an Independent Director of the company with effect from 14th February, 2022 for a term of five n pursuance of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the aforesaid MCA Circulars, the Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited ("LIIPL") to provide e-voting facility to the nembers of the Company through Instavote platform at the link https://instavote.linkintime.co.in for passing of the special resolutions mentioned in the Postal Ballot Notice. The postal ballot notice has been sent only through electronic mode to those members who have

registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories. In compliance with the requirements of the MCA Circulars, the hard copy of the postal ballot notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope will not be sent to the shareholders for this postal ballot and the shareholders are requested to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only. Therefore, those shareholders who have not yet registered their e-mail address are requested to get their

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e.Friday, 25th February, 2022. only will be entitled to cast their votes by e-voting. The persons who are not members of the Company as on the cut-off date should treat this notice as informative only.

e-mail addresses submitted by following the procedure as mentioned in the said postal ballot notice.

Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e-voting on the postal

1	Date of dispatch of the postal ballot notice through e-mail	Wednesday 02.03.2022
2.	Date and time of Commencement of remote e-voting / Postal Ballot	Thursday 03.03.2022 at 9:00 AM
3.	Date and Time of Closure of remote e-voting / Postal Ballot (Remote e-voting facility will be disabled beyond this date and time)	Friday 01.04.2022 at 5:00 PM
4.	Cut-off date of determining the members eligible for e-voting/ Postal Ballot	Friday 25.02.2022

Mr.M.D.Selvaraj, FCS of M/s. MDS & Associates, Practicing Company Secretaries, Coimbatore has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process in a fair and transparent manner and for the purpose of ascertaining the majority. The results of the postal ballot e-voting shall be announced by the Executive Chairman of the Company or any other person authorized by him within 48 hours from the closure of the e-voting platform and the same shall be intimated to BSE Limited (BSE), the stock exchange where the equity shares of the Company are listed. The voting results shall also be displayed on the Company's website www.kgdenim.com and on the LIPL's website https://instavote.linkintime.co.in.

For any grievance/ queries relating to voting by electronic means, the shareholders are requested to write an e-mail at enotices@linkintime.co.in or call at Tel:+91 22 4918 6000 or contact M/s.Link Intime India Private Limited, 'Surya', 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowipalayam Road, Coimbatore-641028 or their telephone number +91 422 2314792 or Mrs. P.Krishnaveni, Company Secretary and Compliance Officer at the Company's Registered Office at Then Thirumalai, Coimbatore-641302; or Phone No: 04254-235240; or E-mail ID: cskqdl@kqdenim.in.

https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the BSE Limited www.bseindia.com By order of the Board

> Sd/- KG Baalakrishnan Executive Chairman, DIN: 00002174 New Delhi

96.8% adults received first dose of Covid vaccine

THE GOVERNMENT ON Wednesday told the Supreme Court that 96.8% of the adult population has been administered with first dose of Covid vaccination and 81.3% have been administered with the second dose.

This is based on the data collated on February 28, Additional Solicitor General Ashwarya Bhatti argued.

As many as 177,50,86,335 (177.5 crore) total vaccines have been administered. In the adult population, 96.8% (90,92,2-7,350) has been covered with the first dose, and 81.3% of the population (76,35,65,779) with the second dose. For the population between 15 and 18 years of age, 74% (5,47,94,459) have been covered with the first dose, and 37.1% (2,74,87,370) with the second dose. The precaution dose for the adult population is 2,00,11,377. **—FE BUREAU**

NMDC April-Feb output up26%; sales jump 25.5%

STATE-OWNED MINER NMDC has posted a 26% jump in its iron ore output to 37.18 million tonnes (MT) during April-February period of 2021-22, an official statement said on Wednesday. During the year-ago period, the company had produced 29.52 MT of iron ore, the Ministry of Steel said. In February, the company saw its production growing 11.7% to 4.31 MT from 3.86 MT in the same month last year. According to the ministry, NMDC's sales during the 11-month period also grew by 25.5% to 36.57 MT, from 29.15 MT a year ago.

By order of the Board The Notice of the Postal Ballot is available on the Company's website www.kgdenim.com, LIIPL's website For LT Foods Limited For K G DENIM LIMITED

Place: Coimbatore

Date: 3rd March 2022

financialexp

11. Last date for submission of claims

Place: Hyderabad **Gonugunta Murali** Liquidator in the matter of M/S BUTTA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

Date: 02.03.2022 Place: Gurugram

Sd/-

Ashwani Kumar Arora **Managing Director** DIN: 01574773

'रूस पर अमेरिका के प्रतिबंधों से भारत पर खास असर नहीं'

सरकार को सहायता अनदान भी

प्रदान कर रही है।

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 मार्च।

वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने बुधवार को कहा कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय वायुसेना पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और भारत के दोनों देशों के साथ संबंध मजबूत हैं। सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में

कहा, 'हम जानते हैं कि (इस समय) भू-राजनीतिक स्थिति कठिन है... रूस के साथ हमारे संबंध बरकरार रहेंगे।' रूस ने 24 फरवरी को युक्रेन के खिलाफ सैन्य हमला शुरू किया था। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इस हमले के बाद रूस पर कड़े आर्थिक एवं अन्य प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय

वायुसेना पर कोई असर पड़ेगा, सिंह ने कहा, 'चीजें अभी सामने आ रही हैं। हमारी स्थिति बहुत मजबूत हैं और दोनों देशों के साथ हमारे संबंध (मजबूत) रहे हैं और आपने यह देखा है।' उन्होंने कहा, 'हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ मुश्किलें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे यह पूछे जाने पर कि क्या रूस पर हम पर बहुत असर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे

असर नहीं पड़ेगा।' भारतीय वायुसेना उप प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए तीन विमान रवाना हो गए हैं।

उन्होंने कहा, 'हम भारतीयों को बाहर निकालने के लिए हर रोज चार उड़ान संचालित कर सकते हैं।' वायुसेना उप प्रमुख ने कहा कि सभी भारतीयों को वापस लाए भरोसा है कि इसके कारण हम पर खास जाने तक निकासी अभियान जारी रहेगा।

गई पेटी में डाली जा सकती है।

केंद्र ने 2025-26 तक योजना को जारी रखने की मंजूरी दी

पीओके के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की योजना जारी रहेगी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 2 मार्च।

केंद्र सरकार ने 2025-26 तक एक व्यापक योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके), श्रीलंकाई तमिलों के विस्थापित परिवारों और 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए धन मुहैया कराया जाएगा।

विस्तारित अवधि के लिए 1,452 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ यह योजना विस्थापन पीड़ितों के उचित आय अर्जित करने और मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों में उनके समावेश से संबंधित है।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार ने कुल 1,452 करोड रुपए के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए विस्थापन पीड़ितों योजना के तहत सात मौजूदा उप-योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजुरी दे दी है।

लिए यूपी

नागपुर, 2 मार्च

पारि षाद

प्रवीण तोगड़िया

ने बुधवार को

उत्तर प्रदेश में हो

और नाराज हैं।

चरणों

विधानस्य भा

चुनाव के नतीजे

महाराष्ट्र

तोगड़िया

मुआवजे

गारंटी

संवाददाताओं से

कहा कि किसान

साथ ही न्यनतम

इंतजार कर रहे

मूल्य

का

कानूनी

जबिक

उत्तर प्रदेश

के

कि

जनता

जीतना

वहां

में

को

के

व्यथित

लिए

अध्यक्ष

(भाषा)।

(विहिप)

पार्टी के

चुनाव

कठिन

क्योंकि

किसान

📵 पूर्वोत्तर रेलवे कटेशन नोटिस सं.:-02-2022

भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिये

वरि. मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर द्वारा पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर

रिधत नार्मल पे.एण्ड. यूज. टायलेट के संचालन

एवं रख-रखाव का ठेका 90 दिनों की अवधि के

लिये आवंटन करने हेत् सीलबन्द कुटेशन

रेलवे स्टेशन का नामः पीलीभीत रेलवे

स्टेशन। कार्य का नामः कुटेशन के आधार पर

03 माह के लिये पे. एण्ड यूज. टॉयलेट का

संचालन एवं रख-रखाव का ठेका, ०३ माह हेत्।

रिजर्व प्राइजः र 30,303/-, बयाना राशिः र

कुटेशन फार्म, कुटेशन नोटिस प्राप्त किये

जाने का स्थान/विवरणः कुटेशन फार्म, कुटेशन

नोटिस एवं कटेशन से सम्बन्धित समस्त

जानकारी रेल नेट की वेबसाईट "www.ner.

indianrailways.gov.in" से डाउनलोड

कर सकते है अथवा कार्यालय कार्य दिवस में

9:30) बजे से 16:00 बजे) तक मण्डल रेल

प्रबन्धक (वा.) कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे-

इउजतनगर से प्राप्त कर सकते हैं। 3, जमा की

जाने वाली बयाना राशिः कुटेशन की बयाना

राशि कॉलम IV में दर्शायी गयी राशि का ही.ही./

एफ.डी.आर. मूल रूप में किसी भी राष्ट्रीयकत/

शिहयूल बैंक के द्वारा "वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे (FA & CAO,

N.E. Railway Payable at Bareilly) के ਧੂਬਾ ਸੌ

जारी को संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा

कोटेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। 4. कार्य की

अवधिः ०३ माह। ५. कुटेशन फार्म बिक्री की

तिथि एवं समय (कार्योलय कार्य दिवस में):

मंडल रेल प्रबन्धक/वाणिज्य/इज्जतनगर

कार्यालय से कार्य दिवस में प्रकाशन तिथि से

विनांक 03.03.2022 तक समय 16.00 बजे

तक। 6. कोटेशन डालने की तिथि एवं समयः

दिनांक 04.03.2022 को समय 15.00 बजे

तक। 7. कोटेशन खोलने की तारीख एवं समयः

विनांक 04.03.2022 को 15.30 बजे। 8.

मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, मण्डल रेल प्रबन्धक

कार्यालय-इज्जतनगर, बरेली-243122 9. रेल

प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह एक या

समस्त कुटेशनों को बिना कारण बताये निरस्त

साथ-साथ क्टेशन से सम्बन्धित सभी पृष्ठों पर

यात्री सविधा संबंधित शिकायत हेत मो.

आ ए गो । कर सकता है। कटेशनदाता कटेशन फार्म के

ह्रेशन जमा करने एवं खोलने का स्थानः वरिष्ठ

आमंत्रित की जाती है:

कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय के माध्यम से योजना के तहत सहायता लाभार्थियों तक पहंचती रहे। सरकार ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग योजनाएं शुरू की थीं। ये सात योजनाएं पीओके और छंब के विस्थापित परिवारों, श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों, त्रिपुरा में राहत शिविरों में रहनेवाले ब्रू शरणार्थियों के राहत और

पुनर्वास के लिए सहायता करती हैं

और 1984 के सिख विरोधी दंगा

पीड़ितों के लिए राहत में वृद्धि प्रदान

करती हैं। योजना के तहत भारतीय क्षेत्र में आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिक हिंसा, वामपंथी उग्रवाद और सीमा पार से गोलीबारी, खनन तथा आइईडी विस्फोट के असैन्य पीड़ितों को वित्तीय सुविधा भी दी जाएगी तथा केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा।

सरकार भारत में कूचिबहार जिले के राहत और पनर्वास से संबंधित में स्थित 51 पूर्व बांग्लादेशी एनक्लेव में बुनियादी ढांचे के विकास और बांग्लादेश में पूर्ववर्ती भारतीय एन्क्लेव से वापस आए 922 लोगों अनुमोदन यह सुनिश्चित करेगा के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल

OSBI

आईटी संपर्क केंद्र, भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी सेन्टर, कपस भवन, 2री मंजिल, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614

शुद्धिपत्र – 2

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आउटबाउंड संपर्क केंद्र प्रौद्योगिकी स्टैक की खरीद के हेत् क्रपया आरएफपी क. SBI/GITC/IT-CONTACT CENTRE/2021/2022/826 दिनांकित: 02.02.2022 को देखें. शुद्धि-पत्र - 2 दिनांकित 28.02.2022 को बैंक की वेबसाइट https://www.sbi.co.in पर देखा जा सकता है.

स्थान: नवी मुंबई तिथि: 03.03.2022

उप. महाप्रबंधक आईटी संपर्क केंद्र

जिकत कार्यालय:-साधना हाउस, द्वितिय तल.570 पी.बी. मार्ग वर्ली, मध्वई-400018 दरभाष:-022 66523500 फैक्स:022 24972741,CIN:U65922MH2007PLC16979 क्षेत्रीय कार्यालय:-प्रथम तल,दीपक प्लाजा,7ए/2,संजय नगर ए,जोशी मार्ग के पास,मैक्स हॉस्पीटल के सामने, मेन कालवाड रोड़ जयपुर-302012

धनराशि की वसली हेत् निम्न वर्णित प्रतिभृत आस्तियों का आधिपत्य लेने के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अचल सम्पत्ति, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है । जो कि भौतिक आधिपत्य में हैं , के ''जहाँ हैं , जैसी है और जो है '' के आधार पर क्रय हेत् सीलबंद लिफाफों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । जिसका विवरण निम्नानुसार है

ऋणा (था)/ जमानतदा(रो)	दिनांक एवं बकाया राशि	सम्पत्ति के सभी अभिन्त अंग स्थित प्लॉट पट्टा संख्या ३७, ग्राम बरनाए तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान क्षेत्रफल	***************************************	धराहर साश
ऋगीःहागामी देवी सह-ऋणीःकडेया लाल, कविना Lan:XSEMAJM00565498	25-07-2020 概. 10,42,322/-	150 वर्गगण सीमाएँ:- पूर्व :आम रास्ता, पश्चिम:सङ्क 5 फीट चौड़ा, दक्षिण: कमल किशोर का घर, उत्तर: हनुमाना सोनी का घर	葱. 7,00,650/-	表 7,00,65/-
ऋणीः गणपत लाल सह-ऋणीःवियला Lan:XSEMAJM00453576	25-07-2020 転, 20,21,074/-	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित खसरा नं. 606/3, 15 बिस्ता, गाँव रूपनगढ़, जी. पी रूपनगढ़, तहः किशनगढ़, अजमेर सीमाण्:- पूर्व:भूमि, पश्चिम: प्लॉट शंकर लाल, दक्षिण: कृषि भूमि, उत्तर: आम रास्ता	জ. 23,22,742/-	枣. 2,32,274/
कर्णाः जरीना सह-अव्यक्तिसम्बद्धाः पोहम्पद रफीक, नजपा Lan:XSEMJPB00532460	28-06-2018 概. 6,30,368/-	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 223 (पश्चिम भाग) ग्राम बासाडो, सरना ड्रंगर, पंचायत समिति झोटबाड़ा जिला, जयपुर, क्षेत्रफल 60.00 वर्गगज सीमाएँ:- पूर्व :अन्य भूमि , पश्चिम:सांसाइटी भूमि , उत्तर:अबन, जगदीश और रामबंद्रको भूमि,दक्षिण: 20 फीट बीडी सदक	联. 8,26,200/-	哥. 82,620/-
ऋणी:संतद सोनी सह-ऋणी:दीपा सोनी Lan:XSEMJPB00739387	25-07-2020 家。 4,55,794/-	सम्बन्धित के सभी अधिन अंग स्थित फ्लैट / पृनिट नंबर टी-3, तीसरी स्थीत, प्लॉट नंबर बी-50, प्लॉक बी, तिरुपति धाम-10, रॉवल सिटी, गांव माचवा, कालवाड रोड, जवपुर राजस्थान क्षेत्रफल 401. 62 वर्गफीट सीमाएँ:- पूर्व :फ्लॉट नंबर बी-47, पश्चिम:30 फीट चौदी सदक, उत्तर: फ्लॉट नंबर बी-49,दक्षिण: फ्लॉट नंबर बी-51	枣. 6,39,374/-	रू. 63,937∕-
ऋणी:शंख अफसर अली सह-ऋणी: सबीना यास्मीन Lan:XSEMJPB00584915	25-07-2020 転。 17,18,274/-	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग विश्वत फ्लॉट नंबर 105, स्कीम नूर नगर, गोनेर रोड, जयपुर, राजस्थान(100 वर्गमज) सीमाऍ:- पूर्व :अन्य फ्लॉट , पश्चिम:रोड 20 फीट चीड्रा , उत्तर: अन्य फ्लॉट , दक्षिण:अन्य फ्लॉट	₩. 12,97,980/-	板. 1,29,798/-
ऋणीःप्रमांद राठीड सह-ऋणीःमधूलिका राठीड Lan:XSEMJPB00765566	25-07-2020 रू. 26,99,474/-	सम्पन्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं 123, सिद्धी विनायक ए-क्लेब, 200 फीट बायपास रोड, कालवाड सुरतपुरा, ग्राम कालवाड, सांचानेर, जिला-जयपुर राजस्थान क्षेत्रफल 107.29 वर्गगज सीमाएँ:- पूर्व :30 फीट सड्क, पश्चिम:अन्य भूमि , उत्तर:प्लॉट नं.124 ,दक्षिण: प्लॉट नं.122	枣. 10,14,282/-	枣.1,01,428/-

.उपरांक वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर निर्धारित निविदा प्रारूप में ईएमडी एवं केवायमी महित मीलबंद प्रस्ताव जमा करने की ऑवम तिथि 18.03.2022 मार्च 5.00 वर्ज तक रहेगी । निविदाएं जो पूर्णत विधिवत रुप से भरी नहीं जावेंगी अथवा गिविदाएं जो अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होंगी ए को वैध निविदा के रूप में स्वीकार नहीं किया जावेंगा एवं तदनुसार निरस्त कर दी जावेंगी ।ईएमडी पर कोई ब्याज होंग नह होगा ।(2) उपरोक्त वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय के परे पर प्रस्ताव खोलने कि निश्चिएवं 19.03.2022 को प्रात: 11.00 से शोपहर 1.00 वर्ज हैं , निविदा को प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थित में खोला जावेगा ।(3) मंपनि के निरीक्षण की निष्ठि 10.03.2022 को प्रात: 11 बजे में ट्रोपहर01.00 बजे के बीच है।(4)ऋणी एवं जमानतदार को एतदनामार विक्राय के ममय व्यक्तित कथ में उपीधान होने के लिए मुख्ति किया जाता है एवं वे ए विक्रय के निधम एवं शर्तों के अनुसार ए उपरोक्तनुसार वर्णित अवल सम्पन्ति को क्रय करने के लिए प्रस्तावित क्रोतागण को साथ ला सकेंगे । (5) यह 15 दिनों का विक्रय चोटिस सरकेंसी एक्ट 2002 के नहरू आध तीर पर जनता विशेष रूप से उधाकर्ता 🗸 ओं . सह- उधारकर्ता ओ जमाननदारों को हिवा जाता है कि उपर वर्षित अवस संपत्ति को सरक्षित लेनदारों के पास बंधक 🙊 भारित किया गया है । महिन्द ररल हार्जीसंग फाइनेंस लिमिटेड 🤇 MRHFL)मुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करूता ले लिया है । जिसे जहां है जैसी है तथा जिस अवस्था में है और महिन्दा करल हार्जीसंग फाइनेंस लिमिटेड की क्काया राशि के आधार पर बेचा जाएगा, किक्री की तारीख से पहले पूर्ण रूप से मीलाबी विज्ञापन रोके जाने के लिए उत्तरदायी है ।(६) अचल सम्पन्ति को सबसे केची निवदा (बोली) लगाने वाले को विक्रय किया जायेगा । हालाँकि अधोहस्तारकर्ता को अन्तर योली (निविदा), यदि आवश्यक हो तो को स्वीकार करने का एकपेय विवेकाधिकार रहेगा । दी गई संपत्ति का विक्रय आरक्षित पूल्य से कम राशि पर नही होगा ।(7)MRHFL उपरोक्त दशांची गई संपत्ति के उपर किसी भी प्रकार के देनदारियों के लिए किम्मेदार नहीं होगा । संपत्ति की नीलामी वहां है जैसी है, जो है तका किस अवस्था में है के आधार पर की जावेगी (८) डिमांड डाफ्ट महिन्द्रा रूरल हार्डसिन फाइनेंस लिसिटंड के पक्ष में बनाए जाएंगे ।(🤫) नीलामी विक्रय की विस्तृत निवम एवं शर्ते निर्धारित निविदा प्रारूप में समाविष्ट की गई हैं । निविदा प्रारूप रूपने के स्वीतिक स्वातिक स्वीतिक स्वितिक स्वीतिक स्वितिक स कार्यालय पर उपलब्ध हैं । प्राधिकत अधिकारी के पास निविदा की तिथि बढ़ाने एवं प्रसाव के नियम व शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा । बांली की अन्य नियम एवं शर्त व अन्य जानकारी हेतु हमारी शास्त्रा चा वंशमाईट www.mahindrahomefinance.com पर जाए ।अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी से उपरांक पते पर संपर्क करें ।

(प्राधिकृत अधिकारी), पहिन्द्रा सरल हार्डीसंग फाइनेंस लिपिटेंड

स्त्रिन ईस्टेट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड CIN: U70102UP2013PTC058824 पंजीकृत कार्यालय: बी-53, मंदिर मार्ग महानगर एक्स्टें, लखनऊ, उ.प्र.-226006 आईएन सम्पर्क का विवरणः sehpltal@gmail.com प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के

केन्द्र सरकार; उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

स्त्रिन ईस्टेट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत **कार्यालय**: बी-53, मंदिर मार्ग महानगर एक्स्टें, लखनऊ, उ.प्र.-226006 आईएन, में है, के मामले में।

रतदद्रारा आम जनता को सचित किया जाता है कि ''उत्तर प्रदेश राज्य से'' से ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' में उसके पंजीकत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 28 फरवरी, 2022 कं अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं

पता: स्त्रिन ईस्टेट होल्डिंग्स प्रा. लि.. बी-53, मंदिर मार्ग बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से

स्निन ईस्टेट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड राहुल भसीन तिथि: 02.03.2022 DIN: 01759247

टेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें।

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 क अनुसरण म

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

एयरलिंक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U72200DL2013PTC253908) जिसका पंजीकृत कार्यालयः **कार्यालय नं. 1, पहली** मंजिल, ए-2, मार्कें ट सीएससी, 264 एलआईजी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 में हैं, के मामले में

की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीवत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 09 फरवरी 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष की पुष्टि की मांग की गई है।

तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय के बीच तनाव बाँदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को जनके

> भारतीय कार्यालय नं. 1, पहली मंजिल, ए-2, मार्केट सीएससी, 264 एलआई जी, पश्चिम विहार, नई

हस्ता / सुवाष अलमविलान कोरोध

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरा क्षत्र, कारपारट मामला का मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) के विषय में;

फार्म नं. आइएनसी-26

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30(5)(ए) के विषय में।

वाइब्रा टेक इंफ्रास्टक्चर प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय फॉर्म नं. 13/3 डीएलएफ, केएच, नं. 1355/2 मिन 1354 1012, 1013, 1014, 1015, छतरपुर एक्स्ट, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली- 110074

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने अपना पंजीकत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पश्चिम बंगाल राज्य में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 28 जनवरी, 2022 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 व उसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 12 और 13 तथा अन्य लागू प्रावधानों

के अंतर्गत केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदन करना प्रस्तावित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों का

मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को भेजें या निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति आवेदक कंपनी के ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है।

हिते एवं कृते याचिकाकर्ता वाइब्रा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./- (शंकर लाल गुप्ता) स्थानः नई दिल्ली निदेशक



CIN NO L74899DL1990PLC041790 Regd. Office:-Unit No 134,1st Floor, Rectangle-1,

Saket District Centre, New Delhi- 110017 Corp. Off.: 4th Floor, MVL-I Park, Sector-15, Gurugram-122001, Website: www.ltgroup.in, Tele: 0124-3055100, Email: ir@ltgroup.in

डाक मतदान और ई-वोटिंग की सूचना

कंपनी के सदस्यों को सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के 8 अप्रैल, 2020 दिनांकित सर्कुलर संख्या 14/2020, 13 अप्रैल, 2020 दिनांकित सर्कुलर सं. 17/2020, 15 जून, 2020 दिनांकित सर्कुलर संख्या 22/2020 28 सितंबर 2020 दिनांकित संकुलर संख्या 33/2020 31 दिसंबर, 2020 दिनांकित सर्कुलर सं. 39/120, 23 जून, 2021 दिनांकित सर्कुलर सं. 10/2021 और 8 दिसंबर, 2021 दिनांकित सर्कुलर से. 20/2021 (इसके बाद सामृहिक रूप से 'एमसीए सर्कुलर' कहा जाएगा), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक (एसएस-2) सचिवीय मानक और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धीकरण दायित्व एवं आवश्यक घोषणा) विनियम, 2015 के नियमन 44 (वर्तमान में प्रभावी और समय-समय पर संशोधित किसी संवैधानिक संशोधन या पुनः लागू किए जाने के अनुसार), एलटी फूड्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की सहमति लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड (रिमोट ई-बोटिंग) से मतदान कर सहमति देने के लिए केवल ई-मेल से डाक मतदान सूचना भेज दी गई है और यह कार्य 2 मार्च, 2022 को सदस्यों / लाभार्थियों के लिए पूरा कर लिया गया है जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी या इसके रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांस्फर एजेंट (यदि शेयर वास्तविक रूप में हों) या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (यदि शेयर इलैक्टॉनिक रूप में हों) के पास दर्ज हो और जिनके नाम 18 फरवरी 2022 (कट-ऑफ तिथि) को सदस्यों की पंजी / लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हों ताकि 31 जनवरी 2022 दिनांकित डाक मतदान सूचना में उल्लिखित कार्यों के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त हो।

सदस्य जिनके नाम शुक्रवार, 18 फरवरी, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सुची में दर्ज होंगे ई-वोटिंग के उद्देश्य से उन पर विचार किया जाएगा और वोटिंग अधिकार की गणना उस तिथि में शेयरधारक के नाम पंजीकृत इक्विटी शेयरों के चुकता मुल्य के आधार पर की जाएगी। कट-ऑफ तिथि में जो व्यक्ति सदस्य नहीं है इस नोटिस को केवल एक सूचना समझें।

31 जनवरी, 2022 दिनांकित डाक मतदान सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ltgroup.in, स्टॉक् एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई और एनएसई वेबसाइट के संबंधित अनुभाग में भी उपलब्ध होंगी जब वे अपलोड करेंगे और यह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर अपलोड की जाएगी।

कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("रिमोट ई–वोटिंग") से मतदान सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सेवा देने हेत् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को नियुक्त है। सदस्यों से यह ध्यान रखने का अनुरोध है कि ई-वोटिंग बुधवार, 2 मार्च, 2022 सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू हो गई है और गुरुवार, 31 मार्च, 2022 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। यदि प्रस्ताव वांछित बहुमत से पारित होते हैं, तो ई-वोटिंग के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात 31 मार्च, 2022 को पारित माने जाएंगे। इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा और 31 मार्च, 2022 शाम 5:00 बजे (आईएसटी) के बाद की इसकी अनुमति नहीं

सदस्य जिनके ईमेल या बैंक खाते के विवरण पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि इक्विटी शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों तो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और यदि शेयर भौतिक रूप में हों तो कंपनी को ir@ltgroup.in पर लिखित विवरण देकर पंजीकृत कराएं।

ई-वोटिंग प्रक्रिया के निर्देशों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों या जिनके ई-मेल पंजीकृत नहीं हैं उनके द्वारा ई-वोटिंग से मतदान के बारे में जानकारी पोस्टल बैलेट नोटिस में दी गई है।

ई-वोटिंग से निष्पक्ष और पारदर्शी डाक मतदान संचालन के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने कार्यरत कंपनी सचिव श्री देवाशीष दीक्षित, प्रोपराइटर, मैसर्स डी दीक्षित एंड एसोसिएटस को स्कृटिनाइजर नियुक्त किया है। स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ डाक मतदान के परिणाम कंपनी के अध्यक्ष 2 अप्रैल. 2022 को शाम 5:00 बजे या उससे पहले घोषित करेंगे और ये कंपनी की वेबसाइट www.ltgroup.in एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंजों बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों पर प्रसारित किए जाएंगे।

यदि आपका कोई प्रश्न हो तो सदस्यों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोग पुस्तिका देखें जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध होंगे। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा से यदि कोई शिकायत तो कृपया संपर्क करें सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेंड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र 400013 या evoting@nsdl.co.in पर ईमेल करें या टोल फ्री नंबररू 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें।

> बोर्ड के आदेशानुसार कृते एलटी फूड्स लिमिटेड अश्विनी कुमार अरोड़ा प्रबंध निदेशक DIN: 01574773

जैन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय : 80, दिखागंज, नई दिल्ली-110002 फोन: 011- -28832213, 9313784974, ईमेल: info@jainbank.com वेब पता: www.jainBank.com

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक ऋणधारक/स्युरिटीज/मार्टगैजर के नाम के समक्ष वर्णित राशि की वसूली के लिये मांग सूचनाएं जारी की। पुनः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी ने i) मैसर्स सम्भव टेक्सटाइल्स का बंधक ऋण ii) मैसर्स अतिशय फैब्रिक्स के ओडी खाता के संदर्भ में प्रतिभृतियों के रूप में धारित नीचे वर्णित परिसम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है।

जैसा कि प्रतिभत परिसम्पत्तियों की बिक्री नीचे वर्णित रूप में जैन-कोऑपरेटिव बैंक लि. के बकाये प्रतिभत ऋण की वसली के लिये की जायेगी। बैंक ''निविदा आमंत्रण द्वारा बिक्री'' के माध्यम से ''जैसा है जहाँ है आधार'' पर यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने के लिये इच्छक हैं जिसके लिये ईएमडी 16.03.2022 के 4.00 बजे अप. या पूर्व में जमा की जायेगी।

मुहरबंद निविदा नीलामी की तिथि अर्थात 19.03.2022 के 2.30 बजे अप. या पूर्व 80, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 में बैंक के शाखा परिसर में रखी

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	कर्जदार का नाम⁄खाता सं. तथा आश्वस्तियां	28.02.2022 तक वसूली योग्य राशि + ब्याज + विधिक व्यय	मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य जमा धरोहर राशि	निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	L- A/c - 10058 श्री नीरज जैन (प्रोप. मैसर्स संभव टेक्सटाइल्स) आश्वस्ति (I) मनोज जैन आश्वस्ति (II) रेनू जैन	रू. 3269110.00	सी-44, माप 32 वर्ग गज, दूसरी एवं तीसरी मंजिल, छत के अधिकार सहित, गली नं. 4, उत्तरी छज्जूपुर, इलाक शाहदरा, दिल्ली-110094	₹. 14,50,000.00 ₹. 1,45,000.00	15-03-2022 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 दोपहर	
2.	L- A/c - 2864 मैसर्स अतिशय फैब्रिक्स (प्रोप. श्री सुशील कुमार जैन) आश्वस्ति (I) श्रीमती रेखा जैन आश्वस्ति (II) श्री प्रतीक जैन		एक दुकान संख्या 4, छत के अधिकार के बिना निचलं छत के स्तर पर, संपत्ति संख्या x/4058, भूमि क्षेत्रफल 11.5 वर्ग फुट यानी 9.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल माप 9 फीट x 11.5 फीट और कथित सम्पत्ति गली नंबर 17, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, की आबादी में स्थित खसरा संख्य 36 में से, गांव घोंडली इलाका शाहदरा, दिल्ली–110031 का क्षेत्र	रु. 2,58,600.00	15-03-2022 12.30 बजे अप. से 1.30 बजे अप.	4.00 बजे अप.

1. यहां ऊपर अनसची में वर्णित प्रतिभत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकत अधिकारी की सर्वश्रेष्ट जानकारी में प्रस्तत की गई है. लेकिन इस उदघोषणा में किसी मल. गलत

विवरण अथवा खामियों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे 2. मुहरबंद लिफाफे को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जैन को–ऑपरेटिव बैंक लि., 80, दरियागंज, नई दिल्ली–110002 में प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की उक्त अनुसूची के अनुसार

उपलब्ध/ इच्छुक बोलीदाताओं के समक्ष खोला जाएगी। उक्त सम्पत्ति की बिक्री ऊपर वर्णित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को बोली में भागीदारी के लिए पत्र के साथ जैन को–ऑपरेटिव बैंक

लि. के पक्ष में देय तथा दिल्ली में भुगतान-योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के पे आर्डर∕ डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा उपरोक्त धरोहर राशि का भुगतान करन होगा। सफल बोलीदाता के मामले में उक्त जमा समायोजित कर ली जाएगी अन्यथा उसी दिन अथवा प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय के अनुसार बाद में वह वापस लौट दी जाएगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री के दिन ही अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथा स्वीकृत विस्तारित अवधि में 25 प्रतिशत बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होग

तथा शेष 75% बोली राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। चुक की स्थिति में धरोहर राशि सहित तब तक जमा की गई सर्भ निविदा खुलने के बाद इच्छुक बोलीदाताओं को रु. 25000/- के गुणक में प्रस्ताव मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की इच्छा पर आपस में इन्टर-रं

 उच्चतम बोली प्राधिकत अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताऐ किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने, अथवा नीलामी को स्थगित या रद्द करने अथवा निविदा खुलने की प्रक्रिया

को रोकने तथा साथ ही बिना किसी पूर्व सुचना के बिक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। 8. यदि ऋणधारक के द्वारा या उनकी ओर से बिक्री के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय में सभी लागतों, चार्जेज तथा बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे अथवा बैंक

को स्वीकार्य रूप में उसके भाग के साथ बैंक की सभी देयताओं को जमा कर दिया जाता है तो परिसम्पत्तियों की बिक्री निरस्त की जा सकती है। 9. सभी सांविधिक देयताओं/एटैन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्कों, स्टाम्प ड्यूटी करों आदि सहित अन्य देयताओं का वहन क्रेता को ही करना होगा।

10. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम से जारी की जायेगी जिसमें बोली जमा की गई हो।

11. बैंक को अन्य किसी अधिभारों की जानकारी नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक सम्पत्तियों के संदर्भ में सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति के किसी चार्जेज, लिएन, अधिभारों अथवा किसी अन्य देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं है। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि किसी भी सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति पर अधिभारों से संबंधित अपने स्वयं की स्वतंत्र जाँच कर लें।

12. ईएमडी जमा करने पर बोलीदाता को आईडी प्रफ, आधार कार्ड तथा पैन कार्ड की प्रति, आवासीय पते के प्रमाण, बोलीदाता का नाम, मोबाईल नम्बर, सम्पर्क नम्बर जमा

13. बिक्री के नियमों एवं शर्तों पर आगे पूछताछ, यदि कोई हो, उपरोक्त पते पर अधोहस्ताक्षरी के साथ की जा सकती है।

14. प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक सुचना मानी जाये।

15. एतद्द्वारा ऋणधारक/ स्युरिटीज/ मार्टगैजरों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान

करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जायेगी।

तिथि: 01.03.2022. स्थान: नई दिल्ली महाप्रबंधक /प्राधिकृत अधिकारी,जैन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

This advertisement is for intimation purpose only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. Not for release in the United States. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the letter of offer dated September 13, 2021 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE" and together with BSE and NSE, "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



KESORAM INDUSTRIES LIMITED Registered Office and Corporate Office: 9/1 R.N. Mukherjee Road, Kolkata 700 001, West Bengal, India. Tel: +91 33 2243 5453 Contact person: Raghuram Nath, Company Secretary and Compliance Officer, E-mail: corporate@kesoram.net; Website: www.kesocorp.com; Corporate Identity Number: L17119WB1919PLC003429

REMINDER CUM FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN: IN9087A01017) ON WHICH FIRST AND FINAL CALL MONEY IS TO BE PAID

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with the relevant rules made thereunder, the Reminder cum Forfeiture Notice has been sent in electronic mode to holders of Rights Equity Shares, whose e-mail address is registered with the Company or its Registrar and Transfer Agent - MCS Share Transfer Agent Limited ("RTA") or the Depository Participant(s) ("DP") as on the First and Final Call Record Date i.e. Thursday, December 2, 2021. Further, physical copy of Reminder cum Forfeiture Notice along with the detailed instructions and payment slip has been dispatched through permitted modes at the registered address of those shareholders: a) who have not registered their e-mail address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or b) who have specifically registered their request for the hard copy of the same. The same is also available on the Company's website at www.kesocorp.com (Link: https://www.kesocorp.com/DOCS/rights-issue.php). The Company has completed the despatch on March 01, 2022.

The Fund Raising Committee of Directors, duly authorised by the Board, at its meeting held on February 21, 2022 has approved sending of the Reminder cum Forfeiture Notice for payment of First and Final Call Money of ₹ 25/- per partly-up Equity Share (comprising ₹ 5/- towards face value and ₹ 20/- towards securities premium) as First and Final Call Money ("Reminder cum Forfeiture Notice") to the holders of such partly paid-up Equity Shares on which the First and Final Call Money remains unpaid.

Final Demand cum Forfeiture	From	То	Duration 15 days	
Call payment period	Saturday, March 05, 2022	Saturday, March 19, 2022		
Modes of Payment	(a) Cheque / Demand Draft (made payable to)(1)	a. Kesoram Industries Limited Call Money – R A/C (for resident shareholders) b. Kesoram Industries Limited Call Money – NR A/C (for non- resident shareholders)		
	(b) R-WAP	Using the R-WAP facility at https://web.linkintime.co.in/Rightssues/index.html (for resident shareholders only)		

Post the merger of certain Public Sector Banks ("PSBs") with other banks, the cheques of the merged PSBs have become invalid effective April 1, 2021. Shareholders may please note that payment of First and Final Call Money made using cheques of such PSBs are liable to be rejected and will not be accepted by the Banks.

Note: NO ASBA facility is available for making application and payment.

In case a shareholder chooses to pay through Cheque / DD, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; First and Final Call Notice No.; DP ID-Client ID / Folio No.; and No. of Rights Equity Shares) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented at IndusInd Bank Limited at any of the following locations during banking hours on or before Saturday, March 19, 2022:

Shareholders

For Resident

Ahmedabad, Mani Nagar- IndusInd Bank Ltd. Shant Prabha Height, Opp. Vallabh wadi, Rambagh jawahar chowk, Mani Nagar, Ahmedabad- 380 008, Gujarat, Rajkot- Ground Floor, Nakshatra IV, Dr Radhakrishnan Road, Opp. Rajkumar College, Near Marwadi Shaves, Gymkhana Road, Rajkot - 360001, Gujarat. Baroda-Ground Floor & 1st Floor, Gold Croft, Vishwas Colony, Jetalpur Road, Baroda - 390 005 Bangalore-Ground Floor, Centenary Building, No. 28, M. G. Road, Bangalore - 560 001. Chennai- No.3 Village Road Nungambakkam, Chennai - 600 034. Gurgaon- Block A, Sushant Lok, Phase I, Tower B, First India Place, 'Gr. Floor, Mehrauli-Gurgaon Road, Gurgaon 122002, Haryana. Hyderabad- H.No.8-2-277/3 & 3A, Laxmi Plaza, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034. Indore- Industry House 15 Agra Mumbai Road, 'Old Palasia, Indore - 452 001 Jaipur-Sangam Complex, Gr. Flr. Church Road, Jaipur 302 001. Kolkata- Savitri Towers, 3A, Upper Wood Street, Kolkata - 700 017. Kolkata- IndusInd Bank Ltd., Ground Floor, Megacity Chambers, 1 India Exchange Place, Kolkata - 700 001, West Bengal. Lucknow- Ground Floor, HT House 25, Ashok Marg, Lucknow - 226001, New-Delhi - Dr. Gopal Das Bhawan 28, 'Barakhamba Road, New Delhi -110 001. Pune-2401, Gen. Thimmayya Rd. (Cantonment), 'Pune - 411 001. Surat- G-2, Empire State Bldg., Near Udhana Darwaja, 'Ring Road, Surat 395 002 Mumbai-IndusInd House, 425, Dadasaheb Bhadkamkar Marg, Mumbai - 400 004 Mumbai-Premises No.59 & 61, Sonawala Building, 57, Mumbai Samachar Marg, Opp Bombay Stock Exchange, Fort, Mumbai - 400 001, Maharashtra

Ahmedabad-World Business House, M. G. Road 'Nr. Parimal Garden, Ellis Bridge Ahmedabad - 380 006.

For Non-Resident Shareholders

Mumbai-IndusInd House, 425, Dadasaheb Bhadkamkar Marq, Mumbai - 400 004 Mumbai-Premises No.59 & 61, Sonawala Building, 57, Mumbai Samachar Marg, Opp Bombay Stock Exchange, Fort, Mumbai - 400 001, Maharashtra Shareholders residing at locations where the Bank's collection centres are not available, may send their First and Final Call Money along with the completed payment slip by registered post/speed post at the office of the Registrar to the Issue: Link Intime India

Private Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India. Tel No.: +91-22-49186200, stating the requisite details along with Cheque/Demand Draft payable at Mumbai, such that the same are received on or before the last date of payment of the First and Final Call Money i.e. Saturday, March 19, 2022. In accordance with SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, read with SEBI circulars bearing reference numbers SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020, SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/13 dated January 19, 2021, SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/552 dated April 22, 2021 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/ CIR/P/2021/633 dated October 1, 2021 (the "SEBI Relaxation Circulars"), a separate web-based application platform, i.e. the R-WAP

facility (accessible at www.linkintime.co.in), has been instituted for making the payment for the First and Final Call by resident shareholders. At the R-WAP webpage, resident shareholders can access and make the payment in electronic mode using the R-WAP. Resident shareholders, making the payment through R-WAP, shall make online payment using internet banking or UPI facility. Please note that, failure to pay the First and Final Call Money pursuant to the Reminder cum Forfeiture Notice, as aforesaid,

shall render the Rights Equity Shares of the Company, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the Act, the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer. Shareholders may also note that:

 The trading in ISIN - IN9087A01017 representing partly paid-up equity shares of face value ₹ 10 each (₹ 5 paid-up) i.e. Rights Equity Shares has been suspended by the Stock Exchanges effective from December 1, 2021. Further the ISIN - IN9087A01017 representing Rights Equity Shares has been suspended by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) effective end of business hours on December 2, 2021

The process of corporate action for converting the partly paid-up Rights Equity Shares to the fully paid-up Equity Shares under the present ISIN - INE087A01019 for the existing fully paid-up Equity Shares, allotted by the depositories, is estimated to be completed, on a best effort basis, within two to three weeks from the last date of payment of the First and Final Call Money pursuant to the Reminder cum Forfeiture Notice. Upon completion of the corporate action, the Rights Equity Shares shall be converted into fully

paid-up Equity Shares and would be credited to ISIN - INE087A01019, allotted by depositories. iii. In case of non-receipt of the Reminder cum Forfeiture Notice, shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Reminder cum Forfeiture Notice to the Registrar to the Issue or may also download the same from the Company's website: www.kesocorp.com (Link: https://www.kesocorp.com/DOCS/rights-issue.php) or the Registrar's website: www.linkintime.co.in. In such a case, however, the shareholder needs to fill the DP ID-Client ID, number of Rights Equity Shares held and amount payable

towards the First and Final Call Money. iv. The shareholder must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961.

All correspondence in this regard may be addressed to: Link Intime India Private Limited

C-101, 1st Floor, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India. Telephone: + 91-22-4918 6200; Email: kesoram.rights@linkintime.co.in; Website: www.linkintime.co.in Investor Grievance Email: kesoram.rights@linkintime.co.in; Contact Person: Sumeet Deshpande SEBI Registration Number: INR000004058

Date : March 02, 2022 Place: Kolkata

For KESORAM INDUSTRIES LIMITED Raghuram Nath

Company Secretary & Compliance Officer

www.readwhere.com

भाजपा नीत केंद्र सरकार ने दोनों कदम पर ही नहीं बढ़ाया है। यूक्रेन-रूस युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों के मुद्दे पर तोगड़िया ने कहा कि केंद्र को इन सभी छात्रों को 15 फरवरी वापस ले आना चाहिए क्योंकि यह साफ था कि दोनों देशों बढ़ रहा

है।

देरी के कारण छात्र की युक्रेन

में जान चली गई कि दुर्भाग्यपूर्ण है।।

डीआईएन: 08549342

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता तदहारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी हेन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन

नेदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से एयरलिंक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

देनांक: 02.03.2022

दिनांक: 03.03.2022 DIN: 00041007

दिनांकः 02.03.2022

स्थान : गुरुग्राम

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना प्रतिभत ऋणों की वसली के उद्देश्य से प्रतिभृति हित अधिनियम , 2002 के अंतर्गत महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधित अधिकारी द्वारा ऋण की ओर बकाया